

Dated:-October 22, 2025

To
National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code No.: PARSVNATH-EQ (NSE); 532780 (BSE)

Subject: -Publication of extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for Quarter ended on June 30, 2025 in two Newspapers (Financial Express and Jansatta)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 read with regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the clipping of newspaper advertisements of Extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025 considered and approved by the Board of Directors in its meeting held on 17.10.2025, published in the following newspapers on 19.10.2025:

- 1. Financial Express (English Edition)
- 2. Jansatta (Hindi Edition)

We request you to take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Parsvnath Developers Limited

Atul Kumar Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

Parsynath Developers Limited

CIN: L45201DL1990PLC040945

Registered & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi-110032, Ph: 011-43050100, 43010500, Fax: 011-43050473 E=mail: mail@parsvnath.com, Visit us at: www.parsvnath.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

ORACLE

ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED

Registered Office: Oracle Park, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063 Tel: + 91 22 6718 3000 Fax: + 91 22 6718 3001 CIN: L72200MH1989PLC053666 Website: https://investor.ofss.oracle.com E-mail: investors-vp-ofss in grp@oracle.com

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THREE AND SIX MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(₹ in million, except per share data)

Particulars	Three month period ended September 30, 2025	Six month period ended September 30, 2025	Three month period ended September 30, 2024
Total Income from Operations	17,888	36,410	16,739
Net Profit for the period before tax	7,972	17,026	8,290
Net Profit for the period	5,461	11,880	5,777
Total Comprehensive Income for the period after tax	5,826	12,387	6,029
Equity Share Capital	435	435	434
Reserves excluding revaluation reserve	83,190	83,190	78,155
Earnings per equity share (face value ₹ 5 each, fully paid)	107		
(a) Basic (in ₹)	62.84	136.71	66.61
(b) Diluted (in ₹)	62.53	136.03	66.18

Mumbai, India

October 17, 2025

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

Central Bank of India

WITE STANDARD FOR "THIRDY" TO SHITTALT TO YOU SINCE 1911

Notice Inviting Tender

GEM /2025/B/6804900

Central Bank Of India invites bids

through GeM portal for End-to-

End Financial Inclusion Gateway

Last date & Time for bid submission

Bids will be opened on 07.11.2025

For details, please visit our website:

"www.centralbank.bank.in" and

apis

dated October 13, 2025.

at https://www.evotingindia.com

Detail of Postal Ballot schedule:

Particulars of event

notice though e-mail

announced

company at mail@apisindia.com

Place: New Delhi

Date: 18/10/2025

will be accepted.

Date of completion of dispatch of postal ballot

Date & time for commencement of e-voting Date & time of closing of e-voting, voting module

would be disabled after this date and time

Date by which the results of postal ballot will be

Solution on Turnkey basis.

is 07.11.2025; 15:00 hours

15:30 hours

GeM portal.

- The above unaudited consolidated financial results for the three and six month period ended September 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 17, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified review conclusion on these results.
- 2. Unaudited standalone results for the three and six month period ended September 30, 2025

(₹ in million)

Particulars	Three month period ended September 30, 2025	Six month period ended September 30, 2025	Three month period ended September 30, 2024
Total Income from Operations	13,009	26,977	12,088
Net profit before tax for the period	6,216	14,126	6,741
Net profit for the period	4,626	10,498	4,971

- The information provided above is the extract of the detailed format of the Financial Results of the Company for the three and six month period ended September 30, 2025, filed with the stock exchanges under the regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the three and six month period ended September 30, 2025 are available on the stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website at https://investor.ofss.oracle.com.
- The Board of Directors of the Company at its meeting held on October 17, 2025, declared an interim dividend of ₹ 130 per equity share of ₹ 5 each for the financial year 2025-26. Further, the Board of Directors has fixed Monday, November 3, 2025 as the Record Date for the purpose of payment of interim dividend. The interim dividend will be paid to those equity shareholders of the Company whose names appear in its Register of Members as on close of business hours of Monday, November 3, 2025.

केंद्रिय कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पोइंट, मुंबई – 400021

Central Office: Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

By order of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer

(Chandrakant Bhagwat)

दरभाष / Tel: 022-6638 7575:

NOTICE TO SHAREHOLDERS RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND PAYMENT

This is to inform that the Board of Directors of the Bank at its meeting held or

Friday, October 17, 2025, has declared 21 Interim Dividend of Rs. 0.20 per equity

share of Rs.10/- each of Bank for the FY 2025-26. The Record Date for

determining the eligibility of Shareholders entitled to receive the said Interim

TDS on Dividend: In terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 ("Act")

as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Bank on or

after April 1, 2020 is taxable in the hands of the shareholders. Shareholders may note that Interim dividend so declared in Board meeting will be subject to

deduction of withholding tax (Tax deducted at source) by the Bank as per the rates

applicable to each category of shareholders as per Record Date. Shareholders

are requested to submit duly filled-in and signed froms on RTA Web-Portal link:

https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or

before October 31, 2025 for claiming exemption form TDS deduction. Kindly note

that no communication/documents on the tax determination / deduction shall be

Updation of KYC details: Shareholders of Bank holding shares in Demat form

are requested to update their KYC details such as PAN, Postal Address, Email ID,

Bank account details, Nomination details at the earliest through your Depository Participant and Shareholders of Bank holding shares in physical form are

requested to update their KYC details by sending either physical copy of duly

filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents to Bank's RTA i.e. MUFG

Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400

083 or soft copy of duly filled in ISR-1 form along with requisite documents through

mail at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com ISR-1 form is available on the website

of Bank at https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations

Date: 17" October, 2025

APIS INDIA LIMITED

(CIN: L51900DL1983PLC164048)

Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008, Delhi, India

E-mail: mail@apisindia.com, Website: www.apisindia.com

Phone: 011-4320 6650, Fax: 011-2571 3631

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members ("the Members or the Shareholders") that pursuant to and in compliance

with the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act,

2013 ("the Act") read together with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules

2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Secretarial

Standard on General Meeting ("SS-2") as applicable issued by the Institute of Company Secretaries of India,

Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements),

Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars and

Notifications issued thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April

2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020.

39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022

dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 9/2023 dated September 25, 2023 and 9/2024 dated

September 19, 2024 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars upto September 30, 2025, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and subject to other applicable laws and

regulations, consent/approval of the Members of Apis India Limited ("the Company") is being sought by way of

postal ballot through e-voting process in respect of the Item of business as set out in the Notice of Postal Ballot

In accordance with the Circulars, the Company has sent notice of postal ballot along with statement setting

out material facts on October 18, 2025 in electronic form (email) to all the members who have registered

their e-mail address with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e. Skyline Financial

Services Private Limited or depository participants and whose name appeared on the Register of Members,

List of Beneficial Owners as on Friday, October 17, 2025 being cut-off date. The postal ballot notice will also

be available on the website of Company at https://apisindia.com/en/investors; website of stock exchange i.e.

BSE Limited at https://www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited

Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as cut-off date i.e. Friday

October 17, 2025 are eligible to vote on the resolutions set forth in the Notice of Postal Ballot. A person who is not

The e-voting module shall be disabled by CDSL at the end of e-voting period. The voting rights of Members shall

be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, October 17, 2025. Once the vote is cast on resolution, the member will not be allowed to change it subsequently

or cast the vote again. The Company is conducting the Postal Ballot only through e-voting; no physical ballots

The Board of Directors of the Company has appointed M/s Gauray Shah and Associates, Practicing Company

Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent

Members whose e-mail IDs are not registered may register their e-mail address and obtain their User ID/password

by contacting the RTA, Skyline Financial Services Private Limited (0-153A, First Floor, Okhla Industrial Area,

Phase-I. New Delhi-110020) at helpdesk@skylinerta.com/ 011-40450193, or by contacting their respective

Depository Participant (for demat holders), by providing name, DP/Client ID or Folio No., PAN, and self-attested

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email

to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 022- 23058738 and 022-23058542/43. All

grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi

Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to

In case of any queries related to postal ballot notice or in case any member whose name appears in the Register

of Member/List of beneficial owners as on the cut-off date, has not received Postal Ballot Notice, may write to the

The result of Postal Ballot along with Scrutinizer's Report will be announced by the Chairperson or person

authorized by her and will also be placed on the website of the Company at https://www.apisindia.com, website

of Stock Exchange i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com respectively and on the website of CDSL at

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 022- 23058738 and 022-23058542/43.

https://www.evofingindia.com, not later than two working days from the conclusion of Postal Ballot

Date/time of event

Saturday, October 18, 2025

09:00 am (IST) on Tuesday, October 21, 2025

Two working days from the conclusion of Postal

05:00 pm (IST) on Wednesday, November 19, 2025

By the order of the Board of Directors

For Apis India Limited

(Chairperson & Director)

Sd/-

Prem Anand

DIN: 00951873

a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Manner of obtaining login ID and password (members without registered e-mail):

Place: Mumbai

ईमेल / Email ID: smird@centralbank.bank.in



रोन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

Central Bank of India

Dividend is fixed as Monday, October 27, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors Oracle Financial Services Software Limited

Makarand Padalkar Managing Director & Chief Executive Officer DIN: 02115514

(I) IDBI BANK IDBI BANK LIMITED

CIN: L65190MH2004GOI148838 Regd. Office-IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005, Tel.:(022) 66552779 / 66553336 Fax: (022) 2218 2352 website: www.idbibank.in email id: idbiequity@idbi.co.in

Audited Financial Results for the Quarter and Half-Year Ended September 30, 2025

Based on the recommendations of the Audit Committee of the Board, the Board of Directors of IDBI Bank Limited at its meeting held on October 18, 2025 has approved the Un-audited Financial Results of the Bank (both Standalone and Consolidated) for the quarter and half- year ended September 30, 2025 in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The aforementioned financial results along with the Auditors' Report are available on the Bank's website at https://www.idbi.bank.in/pdf/financialresulats/Financial-Results-September-2025.pdf and can also be accessed by scanning the Quick Response C



For IDBI Bank Limited Jyothi Biju Nair **Company Secretary**

BUSINESS **♦FINANCIAL EXPRESS**

RELIANCE

Infrastructure NOTICE TO SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Further to our newspaper advertisement dated August 20, 2025, and in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Shareholders are once again informed that a one-time Special Window has been opened for a period upto January 06, 2026 providing an opportunity for the shareholders to relodge the transfer deeds of Reliance Infrastructure Limited which were lodged prior to April 1, 2019, and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. The shares relodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window period.

Eligible shareholders who wish to avail this opportunity, may submit the transfer request along with requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited (Unit: Reliance Infrastructure Limited) at their office at Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032. For further information please refer to the link for SEBI Circular https://tinyurl.com/sebicjul25 or send an email to rinfra.investor@reliancegroupindia.com or rinfra@kfintech.com. Note: The Company encourages its Members to register or update their email IDs with the Depository Participants/ KFintech/Company to receive all communications electronically. Members holding shares in physical form are requested to consider dematerializing the holdings to ensure compliance with SEBI guidelines and to facilitate faster and safer transactions. Members, whose folios are not updated with PAN, KYC details or Choice of Nomination, are requested to update the above details by submitting the relevant ISR Forms to KFintech by emailing to einward.ris@kfintech.com or send the physical copy at above mentioned address.

For Reliance Infrastructure Limited

Paresh Rathod

Company Secretary

Date: October 18, 2025

Reliance Infrastructure Limited

CIN: L75100MH1929PLC001530 Regd. Office: Reliance Centre, Ground Floor, 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000

Place : Mumbai

E-mail: rinfra.investor@reliancegroupindia.com,

Website: www.rinfra.com

OVOBEL FOODS LIMITED CIN - L85110KA1993PLC013875

Registered Office: 319/1 - 329, Golden Point, 2nd Floor, Off Queens Road Cross,

Behind Jain Hospital, Vasanth Nagar, Bengaluru 560001, Karnataka, India. Tel: 080 -25594145/25594147, Fax 080-25594147, E Mail ID-info@ovobelfoods.com, cs@ovobelfoods.com Website: www.ovobelfoods.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the

Members of Ovobel Foods Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, 11th November, 2025 at 10:30 a.m. at Shanthi Sagar (Party Hall) No.9/1, Tank Road, Near Halasuru Lake, Bengaluru 560042 to transact the business set out in the Notice calling the EGM. In compliance with the circular, the Company has sent the Notice of EGM through

electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. The EGM Notice is also available on the Company's website at www.ovobelfoods.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Members who have not provided their email address will not be able to get the Notice of EGM. Hence, members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to furnish the same to Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., at mdpldc@yahoo.com. Instruction for remote e-voting:

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read

- with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to its members, to exercise their right to vote by electronic means on the resolutions proposed to be passed at the EGM. The members holding shares either in physical or dematerialized mode as on the cut-off date viz., Tuesday 04 November 2025 can cast their vote electronically through Electronic Voting System of CDSL at www.evotingindia.com.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation and voting at
- Voting Rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the members as on the Cut-off date i.e. Tuesday 04 November 2025.
- The Remote e-voting facility will be available during the following voting period: a) Commencement of e-voting: From 10:00 a.m. on Saturday, 08 November 2025
- b) End of e-voting: Up to 5:00 p.m. on Monday, 10 November 2025
- The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on resolution is cast by the member, the member cannot modify it
- Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after. dispatch of the EGM Notice through electronic means and before the Cut-off date i.e. Tuesday 04 November 2025 may obtain the USER-ID and Password for remote e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. Maheshwari Datamatics Private Limited, by sending a request at "mdpldc@yahoo.com" mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID. However if
- the person is already registered with the RTA for Remote e-voting, then the existing USER ID and Password can be used for casting vote. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for the information purpose only. Members attending the EGM who have not cast their vote(s) by Remote e-voting shall be eligible to cast their votes through ballot paper which shall be made available at the venue of the EGM. Members who have voted through Remote Evoting shall be eligible to attend the EGM but shall NOT be eligible to again vote at
- The procedure of electronic voting is available in the Notice of the EGM. In case of any query pertaining to e-voting, please refer the "e-voting user manual" for Members available in the help section of the e-voting website of CDSL www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- Members who need assistance before or during the EGM may a) Refer the Frequently asked questions (FAQs) available at www.evotingindia.com
- b) Send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- c) Call toll free Number 1800 225 533. The contact details for addressing queries/grievances, if any ; Mr. Rakesh Dalvi, Sr.

Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

The result of the e-voting / voting at EGM shall be declared on or before 13 November 2025. The resolute will be declared along with the Scrutinizer report shall be placed on the Company's website and be communicated to the Stock Exchange where the shares of the Company are listed. For Ovobel Foods Limited

Date: 18.10.2025

Place: Bangalore

"IMPORTANT"

Prakriti Sarvouy

ACS: 21962

Company Secretary

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Parsynaths

PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED

Regd. & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032 CIN: L45201DL1990PLC040945; Tel.: 011-43050100, 43010500; Fax: 011-43050473 E-mail: investors@parsvnath.com; website: www.parsvnath.com Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June, 2025

Place: Mumbai

Date: 18th October 2025

			Standalone			Consolidated	
S.No.	Particulars	Quarte	ended	Year Ended	Quarte	ended	Year Ended
5.NO.	Particulars	30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	1,432.27	3,711.32	12,524.43	6,451.39	9,012.04	30,345.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(6,077.10)	(4,297.98)	(23,946.55)	(12,374.69)	(9,916.80)	(45,908.06)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	806.46	(4,297.98)	(13,892.00)	(5,314.63)	(9,916.80)	(33,842.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	806.46	(4,297.98)	(13,912.73)	(5,920.45)	(10,093.02)	(34,727.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	814.75	(4,293.31)	(13,900.71)	(5,912.16)	(10,088.35)	(34,715.78
6	Equity Share Capital	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year)			(20,788.92)			(2,25,906.96)
	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) for continuing and discontinued operations						
8	- Basic (in Rupees)	0.19	(0.99)	(3.20)	(1.36)	(2.32)	(7.94)
	- Diluted (in Rupees)	0.19	(0.99)	(3.20)	(1.36)	(2.32)	(7.94)

Notes:

- 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 17 October, 2025. The Statutory Auditors have also carried out a Limited Review of the unaudited results for the quarter ended 30 June, 2025.
- 2. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and
- 3. The Company has earned cash profits on standalone basis and incurred cash losses on consolidated basis during the quarter ended 30 June, 2025. However, the Company/Group has incurred cash losses during the previous periods/year. Due to recession in the past in the real estate sector owing to slowdown in demand, the company faced lack of adequate sources of finance to fund execution and completion of its ongoing projects resulting in delayed realisation from its customers. The company is facing tight liquidity situation as a result of which there have been delays/defaults in payment to lenders, statutory liabilities, salaries to employees and other dues. However, considering substantial improvement in real estate sector recently, the Management is of the opinion that all such issues will be resolved in due course by required finance through alternate sources, including sale of non-core assets.
- Figures for the previous quarter / period have been regrouped, wherever necessary, for the purpose of comparison.

Place : Delhi Date : 17 October, 2025



For and on behalf of the Board Pradeep Kumar Jain Chairman DIN: 00333486

For and on behalf of the Board

Director

New Delhi

(₹ in Lakhs)

Parsvnaths

PARSVNATH LANDMARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED Regd. Office: Parsynath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032 CIN: U45201DL2003PTC122489, Tel.: 011-43050100, 43010500; Fax: 011-43050473 E-mail: secretarial@parsvnath.com; website: https://www.parsvnath.com/investors/parsvnath-landmark-developer-pvt-ltd/

Extract of Financial Results for the guarter ended June 30, 2025

		Quarter	ended	Year ended	
SL. No.	Particulars	June 30, 2025	June 30, 2024	March 31,2025	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	2,335.34	1,104.66	4,822.10	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(758.19)	(44.86)	2,095.38	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(758.19)	(44.86)	2,095.38	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(758.19)	(221.89)	1,543.76	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(758.19)	(221.89)	1,543.89	
6	Paid up Equity Share Capital	328.21	328.21	328.21	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(31,306.00)	(32,313.60)	(30,547.81	
8	Net worth	(30,977.79)	(31,985.39)	(30,219.60	
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-		-	
10	Debt Equity Ratio	(0.66)	(0.50)	(0.64)	
11	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(23.10)	(6.76)	47.04	
	2. Diluted:	N.A.	N.A.	N.A	
12	Debenture Redemption Reserve	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
13	Capital Redemption Reserve	-			
14	Debt Service Coverage Ratio	0.05	(0.03)	0.37	
15	Interest Service Coverage Ratio	_			

NOTES:

Place : Delhi

- a) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the financial results are available on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and the Company (https://www.parsvnath.com/investors/parsvnathlandmark-developer-pvt-ltd/). b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd.
- and can be accessed on the URL www.bseindia.com. c) The above financial results have been reviewed and approved by the Board of Directors in the meeting held on October 16, 2025.
- Figures for the period ended June 30, 2025 have been taken as unaudited. d) The Company has not received any complaint from the investor during the quarter ended June 30, 2025 and there was no complaint
- pending at the beginning of the quarter. e) Figures for the previous year/period have been regrouped for the purpose of comparison.
 - Parsynath Landmark Developers Pvt Ltd

Surya Mani Pandey Dated: October 16, 2025 DIN: 08250346

epaper.financialexpress.com

जनसता

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्याः: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउश्च एंड स्ववायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020



जबिक <mark>अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड</mark> का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दशाए अनुसार राशि का मांगू पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दशाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार

ı	ानम्न खाता क सामन दशाइ गइ बकाया राशि तथा उ	न्न खाता के सामन देशाई गई बकाया सारा तथा उन पर ब्याज वे खेचा के लिए आवास फाइनसे आवास फाइनासयस लिमटंड के प्रभार के अध्यधान हागा।									
	ऋणी का नाम	थारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्बे की तारीख एवं प्रकार							
	सरिता सरिता, राम हेत सम्पत खाता सं. LNLKO02122-230283060 व LNLKO09322-230283982	6 मार्च 2024 ₹ 2364050/- व ₹ 814286/- 6 मार्च 2024	प्लॉट नं. पी-4 पर जमीन के साथ बना मकान, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट केवल खसरा नं. 302 का हिस्सा, देवपुर में स्थित, वार्ड केसरीखेड़ा, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा दिनांक 17 अक्टूबर 2025							
	स्थान : उत्तरप्रदेश दिनांक : 1	9-10-2025	प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनें	सियर्स लिमिटेड							

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सीआईएन: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफसी एसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV [नियम–8(1)] कब्जा सुचना (अचल संपत्ति के लिए) जबकि, यहां उल्लिखित सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने वितीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्त (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पिटत (नियम 3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ऑ) को उक्त की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

नीचे उल्लिखित असाइनर ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंपा है. जो नीचे उल्लिखित विभिन्न टस्टों ह ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है (जिसे बाद में "इंएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धार . 5 के अनुसार असाइनमेंट के अनुसार, ईएआरसी असाइनर के स्थान पर आ गया है और उद्यारकर्ता/सह–उघारकर्ता द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में असाइनर के सभी अधिकार, शीर्षक और हित अंतर्निहित सुरक्षा हितों, गारंटी, प्रतिज्ञाओं के साथ ईएआरसी के पास निहित हैं और ईएआरसी सुरक्षित नेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, एडलवाइस एसे रेकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित तिथि को ले लिया है

- 1		41									
क्रं. समनुदेशक का ईएआरसी ऋण खाता		उधारकर्ता का नाम और	मांग सूचना की	কল্যা	कब्जे की						
- 1	₹.	नाम	ट्रस्ट –	संख्या	सह—उधारकर्ता (ओ) का नाम	राशि और तारीख	की तिथि	स्थिति			
- [1 एचडीबी एससी 482 13729331 फाइनेशियल ट्रस्ट का और		जधारकर्ता मेसर्स पप्पी शुगर प्रोडक्ट्स	26.06.2024 और	16.10.2025	भौतिक					
- 1			और सह—उधारकर्ता श्री अजय कुमार	₹.51,84,726.07 /-		कथा					
सर्विसेज लिमिटेड नाम 5892128		कश्यप, श्रीमती सपना कश्यप	26.06.2024 तक								
- 1	संपत्ति का विकरणः 'अप्रि का एक टकता नियका शेलावल अंखण ६२ है और नियका शेलावल १७४२२ वर्ष भीटर है जगरा गंख्या १२२२ के अनुपार राज्यत विहारमान										

नगता तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में रिपत हैं", और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व — प्लॉट संख्या 84, पश्चिम — प्लॉट संख्या 82, उत्तर — सङ् 30 फीट चौडी, दक्षिण – प्लॉट संख्या 102

ह्यारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबं में है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन पर नीचे उल्लिखि उस पर ब्याज के लिए एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का दायित्व होगा। हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी एडलवाइस एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

स्थानः बरेली दिनांकः 19.10.2025



Parsynaths

PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED Regd. & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032

CIN: L45201DL1990PLC040945; Tel.: 011-43050100, 43010500; Fax: 011-43050473 E-mail: investors@parsvnath.com; website: www.parsvnath.com Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June, 2025

(₹ in Laiths) Standalone Consolidated

Quarter ended Year Ended Quarter ended Year End 30.06.2025 30.06.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.06.2024 31.03.2025

	0		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	1,432.27	3,711.32	12,524.43	6,451.39	9,012.04	30,345.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(6,077.10)	(4,297.98)	(23,946.55)	(12,374.69)	(9,916.80)	(45,908.06)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	805.45	(4,297.98)	(13,892.00)	(5,314.63)	(9,916.80)	(33,842.73)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	805.46	(4,297.98)	(13,912.73)	(5,920.45)	(10,093.02)	(34,727.25)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]		(4,293.31)	(13,900.71)	(5,912.16)	(10,088.35)	(34,715.78)
- 6	Equity Share Capital	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year)			(20,788.92)			(2,25,906.96)
	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) for continuing and discontinued operations						
8	- Basic (in Rupees)	0.19	(0.99)	(3.20)	(1.36)	(2.32)	(7.94)
	- Diluted (in Rupees)	0.19	(0.99)	(3.20)	(1.36)	(2.32)	(7.94)

Notes:-

- 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 17 October, 2025. The Statutory Auditors have also carried out a Limited Review of the unaudited results for the quarter ended 30 June, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.parsvnath.com).
- 3. The Company has earned cash profits on standalone basis and incurred cash losses on consolidated basis during the quarter ended 30 June, 2025. However, the Company/Group has incurred cash losses during the previous periods/year. Due to recession in the past in the real estate sector owing to slowdown in demand, the company faced lack of adequate sources of finance to fund execution and completion of its ongoing projects resulting in delayed realisation from its customers. The company is facing tight liquidity situation as a result of which there have been delays/defaults in payment to lenders, statutory liabilities, salaries to employees and other dues. However, considering substantial improvement in real estate sector recently, the Management is of the opinion that all such issues will be resolved in due course by required

finance through alternate sources, including sale of non-core assets. 4. Figures for the previous quarter / period have been regrouped, wherever necessary, for the purpose of comparison

NATIONAL P.G. COLLEGE (AUTONOMOUS) 🧥

(NAAC Grade 'A' and C.P.E. College)
2-Rana Pratap Marg, Lucknow Ph.: 0522-4021304 E-mail: nationalpgcollege@gmail.com Website: www.npgc.in Admissions Open in

Ph.D. PROGRAMME

for Session 2025-26 Subjects: Geography, Physical Education,

Education, English, History

Registration Starts - 10.10.2025

<u>Last Date of Registration</u> - 17.11.2025

Details of Ph.D. Programme are available on College Website - www.npgc.in

शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि की सूचना यह सूचित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बैंक के *10/- प्रति इक्रिटी शेयर पर *0.20 के दूसरे अंतरिम लाभांश को स्वीकृति दी है। उच्नु अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयर्धार्कों की पोरियता निर्धारित करने के लिए **रिकॉर्ड तिथि सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025** निर्धारित की गई है। लाभांश पर टीडीएस: आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, जिसे वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद बैंक

वित्त आधानियम्, 2020 द्वारा संशाधित किया गया है, विनाक ने अप्रल, 2020 को यो उसके बाद बेक द्वारा भुगतान किया गया या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर भुगतान के अधीन होगा। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बोर्ड बैठक में घोषित अंतरिम लाभांश बैंक द्वारा टैक्स कटौती (स्रोत पर कर कटौती - टीडीएस) के अधीन होगा, जो कि रिकॉर्ड तिथि के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारकों पर लागू दरों पर आधारित होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे टीडीएस कटौती से छूट प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म RTA वेब-पोर्टल लिंक

nttps://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर **31 अक्टूबर, 2025** को या उससे पूर्व पहले जमा करें। कृपया ध्यान दें कि इसके पश्चात कर निर्धारण / कटौती से संबंधित कोई भी पत्राचार/ दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवाईसी विवरण अपडेट करना: बैंक के जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं, उनसे अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने केवाईसी विवरण जैसे- पैन, डाव जनुराव हाम पुजाने जियांजिए गाटिस्तर के माजन से उपने क्याईसा व्यवस्था जाई है। इस पता, ईमेल आईडी, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण को शीघ्र अपडेट करें और बैंक के जिन शेयरथारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करने के लिए विधिवत भरे हुए **आईएसआर-1** फॉर्म की भौतिक प्रति आवश्यक दस्तावेजों

के साथ बैंक के आरटीए अर्थात MUFG Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Marg. Vikhroli (West) Mumbai 400 083 पर भेजें अथवा विधिवत भरे हुए आईएसआर -1 फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक दस्तविजों के साथ rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ईमेल के माध्यम से भेजें. **आईएसआर -1** फॉर्म बैंक की वेबसाइट

भेजें. आईएसआर - 1

केंद्रिय कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई — 400021 Central Office: Chander Mukhi, Nariman Point, Mu ПЧ / Tel.: 022-6638 7575; हंगेल / Email ID: smird@centralbank.bank.in

Place : Delhi Date : 17 October, 2025



For and on behalf of the Board Sd/-Pradeep Kumar Jain Chairman DIN: 00333486

दुर्गेश मर्चेट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-328, बेसमेंट फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, फोनः 011-68888824 सीआईएन: L65923DL1984PLC248322, ईमेल आईडी: durgeshmerchants@gmail.com

वेबसाइटः www.durgeshmerchantstld.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों के पुनः दाखिल के लिए विशेष विंडो

सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, दुर्गेश मर्चेंटस लिमिटेड के शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली जायेगी । शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे, और दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुन जमा किए गए शेयरों का प्रसंस्करण केवल अभौतिकीकृत रूप में ही किया जाएगा। पात्र शेयरधारक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना हस्तांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी–153ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– ।, नई दिल्ली – 110020 को प्रस्तुत कर सकते हैं या admin@skylinerta.com और parveen@skylinerta.com पर ईमेल कर सकते हैं।

> दुर्गेश मर्चेट्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता 🖊 रोहित आहूजा

> > (प्रबंध निदेशक)

डीन: 07859817

दिनांकः 16/10/2025 स्थानः नई दिल्ली

apis

एपिस इंडिया लिमिटेड

(CIN: L51900DL1983PLC164048) पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, दिल्ली, भारत इमेल: mail@apisindia.com, वेबसाइट: www.apisindia.com फ़ोन: 011-4320 6650, फ़ैक्स: 011-2571 3631

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों **("सदस्यों या शेयरधारकों")** को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") की धारा 108 और धारा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (तत्समय प्रवृत किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के साथ पठित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वार जारी सामान्य बैठक संबंधी सचिवीय मानक ("SS-2"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 का विनियम 44, ("**सूचीबद्धता विनियम**") और अधिनियम, नियमों, परिपत्रों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अन्य लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("**एमसीए**") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्य 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने के संबंध में के साथ पठित और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अधीन, एपिस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') वे सदस्यों की सहमति/अनुमोदन, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के पोस्टल बैलट नोटिस में उल्लिखित कार्य मद के संबंध में ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने 18 अक्टूबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक रूप (ईमेल) में उन सभी सदस्यों को पोस्टल बैल की सूचना भेजी है, जिन्होंने कंपनी या रिजस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('**आरटीए**') अर्थात स्काईलाइन फाइनेंशियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराया है और जिनका नाम शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है। पोस्टल बैलट की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://apisindia.com/en/investors; स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट nttps://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों के नाम अंतिम तिथि अर्थात शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 तक सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामित हैं, वे पोस्टल बैलट की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर मतदान करने के पात्र हैं। जो व्यक्ति अंतिम तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

पोस्टल बैलट अनुसूची का विवरण:

स्थान: नई दिल्ली

3	₱.	कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की तिथि/समय								
	सं.	कायक्रम का ।ववरण	कायक्रम का तिथि/समय								
	1.	ईमेल के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना भेजने की समाप्ति तिथि	शनिवार, 18 अक्टूबर, 2025								
	2.	ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समय	मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST)								
	3.	ई-वोटिंग बंद होने की तिथि और समय, इस तिथि और समय के बाद वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा	बुधवार, 19 नवंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे (IST)								
	4.	पोस्टल बैलट के परिणाम घोषित होने की तिथि	पोस्टल बैलट की समाप्ति से दो कार्य दिवस								
	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2										

अंत में सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के मतदान अ कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे एक बार प्रस्ताव पुर मतदान हो जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी कंपनी **केवल ई-वोटिंग** के माध्यम से पोस्टल बैलट का संचालन कर रही है; कोई भी भौतिक मतपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स गौरव शाह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट का संचालन करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। नॉर्पेन आर्दडी और पासवर्द प्राप्त करने का तरीका (बिना पंजीकृत ई-मेल वाले सदस्य):

जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं और आरटीए, **स्काईलाइ**न **फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** (डी-153ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।, नई दिल्ली-110020) र nelpdesk@skylinerta.com/011-40450193 पर संपर्क करके अपना यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, अपने संबंधित **डिपॉजिटरी प्रतिभागी** (डीमैट धारकों के लिए) से संपर्क करके, नाम, डीपी/क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर पैन और शेयरधारिता का स्व-सत्यापित प्रमाण प्रदान कर सकते हैं। यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं. तो आप

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 022-23058738 और 022-23058542/4 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायते श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को भेजी जा सकती हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 022-23058738 और 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं म्टल बैलट नोटिय से संबंधित किसी भी एथ के पापले में गा गृटि कोई सदस्य निसका नाम कट .ऑफ तिथ

लाभार्थी स्वामियों की सूची में है, उसे पोस्टल बैलट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह कंपनी को mail@apisindia.com पर लिख सकता है।

पोस्टल बैलट के परिणाम के साथ-साथ स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी और इसे कंपनी की वेबसाइट https://www.apisindia.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएमई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर पोस्टल बैलट के उमापन से दो कार्य दिवसों के भीतर डाल दिया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार एपिस इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता/ (अध्यक्ष एवं निदेशक

Standalone



District Consumer Disputes Redressal Commission-X (SOUTH-EAST) Government of NCT of Delhi Udyog Sadan, C-22 & 23, Qutub Institutio Area, 3rd Floor, (Behind Qutab Hotel), New Delhi-110016 Case No. 194/23 Despatch No. 962/18.09.2025 NOTICE Pradeep Kumar Singh V/s

Shantah Fertility Centre Shantah Fertility Centre OP. A-9/20, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Dr. Anubha Singh Shantah Fertility Centre

Dr. Anubha Singh Flat No. 507, DJA Apartment, Plot No. 1A, Sector-13, Dwarka New Delhi-110078

This is to inform you that aforementioned case has been noted for hearing on 12/11/2025 for purpose of further proceedings. You are directed to attend the sitting of the Commission at 10:30 A.M. to the aforesaid date along with your pleading/evidence in the form of the affidavit f not fixed earlier for the final hearing

Seal For President DCDRCX

Sitara

सेवा गृह ऋण लिमिटेड कॉपोरेट कार्यालय का पता: बिल्डिंग नं. ८, टॉवर सी, ८वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी,

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३(१) के साथ पठित

नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) वे अंतर्गत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिर जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (*उक्त उधारकर्ता(ओं)') से आह्वान किया गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाएं, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को भूगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नीचे दशईि गई राशि, साथ ही उक्त मांग सूचना(ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि(ओं) से लकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौत के तहत देय है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के

ज्य व	र में, निम्नलिखत परिसपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता(ओ) द्वारा सेवा गृह ऋण लिमेंटेड के पास बंधक रखा गया है।								
रू. मं.	ऋण खाता नं./ कर्जदार/गांरटर का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि							
1.	ऋण खाता संख्या : H1CP000005002644	30.09.2025							
	१. श्रीमति नत्थो, पति श्री मजोरी	₹ ८,९३,४४१.८/- (आठ लाख तिरानवे हजार चार सौ							
	२. श्री मनोज कुमार, पिता श्री महेंद्र सिंह	इकतालीस रूपये एवं अस्सी पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५							
	3. श्री महेंद्र सिंह, पिता श्री भाजोरी राम	तक							
_	1								

स्रक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति : खसरा नं ३०८ मौज़ा चौमाशाहपुर तहसील किरावली जिला आगरा उत्तर प्रदेश, **चौहदी:- पूर्व**ं मोहर सिंह की जमीन, **पश्चिम-** 12 फुट आम रास्ता, **उत्तर-** अन्य जमीन, **दक्षिण -** कमल सिंह की जमीन

2. ऋण खाता संख्या : H1CP000005004158 30.09.2025 १. श्रीमति शबीना खातून, पति श्री मो मकसूद ₹ २६,५१,७१५.०७/- (छब्बीस लाख इकावन हजार सात सौ 2. श्री मकसूद खान, पिता श्री मनसशुर खान पन्द्रह रूपये एवं सात पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक **सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति :** फ्लैट नं डी-१०१, तीसरी मंजिल खसरा नं. १२०३, बरोला नोएडा सेक्टर ४९ जी.बी. नगर उत्तर प्रदेश २०१३०१, **चौहरी:- पूर्व-**१४ फुट रोड, **पश्चिम-** वीर चौहान का मकान, **उत्तर-** आदेश नागर का मकान, **दक्षिण-** राम चौहान का खाल

3. ऋण खाता संख्या : H4RR000005016727 26.09.2025 १. श्रीमति रेखा गुप्ता, पति श्री लाल कूबर गुप्ता ₹ ६,०८,११२.२७/- (छह लाख आठ हजार एक सौ बारह 2. श्री विकाश गुप्ता, पिता श्री लाल कूबर रूपये एवं सत्ताइस पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक

सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति : दुल्लापुर ग्राम रौरा खुर्द वार्ड नंबर १० (पुराना) और ०९ (नया) तहसील मिलक, जिल . रामपुर, उत्तर प्रदेश, **चौरद्दी:- पूर्व-** छतरपाल का मंकान, **पश्चिम-** उमेश कहरिया का माकन, **उत्तर -** ललित गंगवार, **दक्षिण -** ४ फुट रास्ता 4. ऋण खाता संख्या : HLP100004873 30.09.2025 ₹ ७.९६.४८२.०९/- (सात लाख छियानवे हजार चार सौ

१. श्रीमति आरती चौहान, पति श्री महेंद्र सिंह चौहान 2. श्री महेंद्र सिंह चौहान, पिता श्री विजय सिंह चौहान बयासी रूपये एवं नौ पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक ३. श्री गुलशन चौहान, पिता श्री महेंद्र सिंह चौहान 4. श्री शिव कुमार चौहान, पिता श्री श्याम सिंह

सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति : खसरा नंबर १२९२/९१, बैकुंठी बाग, भगवती बाग के पास, मौजा नाराइच, तहसील एत्मादपुर जैला आगरा उत्तर प्रदेश, **चौहदी:- पूर्व-** २० फीट चौड़ा रास्ता**, पश्चिम-** मकान मंजू देवी, **उत्तर-** खुली भूमि श्री विजय सिंह, **दक्षिण-** प्रीतम सिंह का मकान 5. ऋण खाता संख्या : L1CP000005002793 30.09.2025

. श्रीमति शशि, पति श्री विनोद कुमार ₹ 13,52,734.9/- (तेरह लाख बावन हजार सात सौ २. श्री विनोद कुमार, पिता स्व. श्री नत्थी लाल चौंतीस रूपये एवं नब्बे पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक 3. श्री करन कुमार, पिता श्री विनोद कुमार 4. श्री शिवम शर्मा, पिता श्री रज्जन शर्मा **सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति :** प्लाट नं ३१ सी सीता नगर मौजा-नरायच तहसील एत्मादपुर व जिला आगरा उत्तर प्रदेश,

चौहदी:- पूर्व- २० फुट रास्ता, **पश्चिम-** नत्थी लाल, रामवीर पजेशन लीगल, **उत्तर-** १४ फुट रास्ता, **दक्षिण-** पजेशन लीगल लखन 6. ऋण खाता संख्या : L1CP000005003600 30.09.2025 १. श्रीमति सबिया खान, पति श्री शोएब खान ₹ २९,७०,९०७.१६/- (उनतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ २. श्री शोरत खान. पिता श्री रफीक खान सात रूपये एवं सोलह पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक

3. श्री मोहम्मद जबैर. पिता श्री मोहम्मद रशीद **सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति :** खेत खसरा नं २८४५ व २८४९ बाके करबा कोल-॥ नजदीक तुरकमान गेट परगना और तहसील कोल जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश २०२००१, **चौहदी:- पूर्व-** परवेज़ खान का मकान, **पश्चिम-** मुमताज़ का मकान, **उत्तर**- शांकिर क मकान, **दक्षिण-** रोड

26.09.2025 ऋण खाता संख्या : L1CP000005011295 १ श्रीमति कौसर खान पति श्री मो, फिरोज खान ₹ 8.29.042.51/- (आठ लाख उनतीस हजार बयालीस 2. श्री मोहम्मद फिरोज, खान पिता श्री समर मो. खान रुपये एवं इकावन पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक 3. श्री मो. हुमैद खान, पिता श्री मोहम्मद फिरोज खान

4. श्री मिर्जा शाद बैग, पिता श्री राहिस बैग **सरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति :** फ्लैट नं ०३ २-मंजिल, खेत खसरा नं ३०६ खेवट नं ०१ मौजा दोधपुर माफी परगना कोली . जेला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, **चौहदी:- पूर्व-** फ्लैट नं ०९, **पश्चिम-** खाली ऐरिया, **उत्तर-** कॉमन पैसिज, **दक्षिण-** फ्लैट नें ११ 8. ऋण खाता संख्या : LAP100001895 26.09.2025

. श्रीमति पष्प देवी. पति श्री सरज प्रसा 2. श्री सरजू प्रसाद यादव, पिता श्री राधे श्याम यादव रूपये एवं छियालीस पैसे) दिनांक १०.०८.२०२५ तक 3. श्रीमति रीना, पति श्री दीपक

सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति : हाउस नं ई ११७ पंचशील एन्क्लैव भीपुरा गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, **चौहदी:- पूर्व-** प्लॉट, **पश्चिम-**12 फुट रास्ता, **उत्तर-** दीगर मालिक का प्लॉट, **दक्षिण-** प्लॉट दीगर यदि उक्त उधारकर्ता **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** अधिनियम की धार

13(14) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर कार्यवाही करेगा, उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पढे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपनियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन के लिए उक्रसाएगा, अधिनियम के अधीन कारावास और/ या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। स्थान: दिल्ली , दिनांक: १८.१०.२०२५

Consolidated

प्राधिकृत अधिकारी, सेवा गृह ऋण लिमिटेड

JAIPRAKA

Read. Office: Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh) Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India) Website: www.jppowerventures.com Email: jpvl.investor@jalindia.co.in CIN: L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2025

(Rs. in Lakhs except Earning Per Share)

		Statiuatoric						Consolidated					
Sr.	Particulars	(Quarter Ended		Six Mon	Six Months Ended Year Ended		Quarter Ended			Six Months Ended		Year Ended
No.	Farticulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	147,843	163,031	130,461	310,874	308,361	570,630	147,849	163,088	130,519	310,937	308,425	570,755
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	29,173	43,459	23,386	72,632	82,155	121,456	29,201	43,481	23,443	72,682	82,218	121,561
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	29,173	43,459	23,386	72,632	82,155	121,456	29,201	43,481	23,443	72,682	82,218	121,561
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and exceptional items)	18,203	27,795	18,211	45,998	53,059	81,073	18,210	27,813	18,266	46,023	53,120	81,355
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	18,203	27,796	18,214	45,999	53,066	81,075	18,210	27,814	18,269	46,024	53,127	81,357
6	Equity Share Capital	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346
7	Other Equity						161,978						162,221
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)												
	Basic :	0.20	0.31	0.21	0.51	0.60	0.89	0.20	0.31	0.21	0.51	0.60	0.89
	Diluted:	0.20	0.31	0.21	0.51	0.60	0.89	0.20	0.31	0.21	0.51	0.60	0.89

Note: The above is an extract of the detailed statement of Quarter/Half Year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarter/Half Year ended financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com and also on the Company's website i.e. www.ippowerventures.com











निदेशक मंडल के आदेशानुसार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



